

Roll No.-----

Paper Code

2 7 5

(To be filled in the
OMR Sheet)

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक
Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका सीरीज
Question Booklet Series

B

M.Ed. (Second Year) Examination, 2021-22

(M.Ed. 1018)

Measurement, Evaluation and Statistics in Education

(For Regular/Ex/Back Paper)

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-80

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : —**
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सीरीज का विवरण यथास्थान सही- सही भरें, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
 2. इस प्रश्नपुस्तिका में 60 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 50 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, तो उसे गलत उत्तर माना जायेगा।
 3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
 4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
 5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
 6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी ओ०एम०आर० शीट उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
 7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

महत्वपूर्ण : — प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

K-275

Rough Work / रफ कार्य

- | | |
|--|---|
| <p>1. First Book of Measurement is written by :</p> <p>(A) Bradefield</p> <p>(B) Thorndike</p> <p>(C) Stevens</p> <p>(D) E. A. Peal</p> | <p>1. मापन पर पहली पुस्तक लिखी गयी :</p> <p>(A) ब्रेडफील्ड</p> <p>(B) थार्नडाइक के द्वारा</p> <p>(C) स्टीवेन्स</p> <p>(D) ई० ए० पील</p> |
| <p>2. Which is not a characteristic of a good test ?</p> <p>(A) Self correlation of test</p> <p>(B) Norms</p> <p>(C) Validity</p> <p>(D) Subjectivity</p> | <p>2. एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है :</p> <p>(A) परीक्षण का आत्म सह-सम्बन्ध</p> <p>(B) मानक</p> <p>(C) वैधता</p> <p>(D) आत्मनिष्ठता</p> |
| <p>3. The main aim of item Analysis is :</p> <p>(A) To make items easy</p> <p>(B) To give important information about difficulty level and discrimination index of items.</p> <p>(C) To make items more reliable</p> <p>(D) To improve language of Items</p> | <p>3. पद विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है :</p> <p>(A) पदों को सरल बनाना</p> <p>(B) पदों की कठिनता स्तर तथा विभेदक सूचकांक के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देना</p> <p>(C) पदों को अधिक विश्वसनीय बनाना</p> <p>(D) पदों की भाषा को सुधारना</p> |

4. In which objective item objectivity is less than other items ?

- (A) Multiple choice item
- (B) Completion Item
- (C) Matching Items
- (D) None of the above

5. Which instrument is used for measuring the sample of behaviour?

- (A) Evaluation
- (B) Measurement
- (C) Test
- (D) Assessment

6. From the following the right sequence is :

- (A) Assessment, Measurement, Evaluation, Test
- (B) Evaluation, Test, Measurement, Assessment
- (C) Test, Measurement, Assessment, Evaluation
- (D) Test, Evaluation, Assessment, Measurement

4. निम्नलिखित में से कौन से वस्तुनिष्ठ पद में वस्तुनिष्ठता अन्य पदों से कम होती है ?

- (A) बहु विकल्पीय पद
- (B) पूरक पद
- (C) मिलान पद
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. व्यवहार के प्रतिदर्श को मापने के लिये किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ?

- (A) मूल्यांकन
- (B) मापन
- (C) परीक्षण
- (D) आंकलन

6. निम्नलिखित में सही क्रम है :

- (A) आंकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण
- (B) मूल्यांकन, परीक्षण, मापन आंकलन
- (C) परीक्षण, मापन, आंकलन, मूल्यांकन
- (D) परीक्षण, मूल्यांकन, आंकलन, मापन

7. A student having same Physical and mental age. His IQ will be :

- (A) 100
- (B) 80
- (C) 110
- (D) 90

8. In which type of test analysis of items is necessary ?

- (A) Teacher made test
- (B) Standardized test
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

9. Which scale is used for attitude measurement ?

- (A) Ordinal scale
- (B) Projective scale
- (C) Likert scale
- (D) Nominal scale

10. Guttman scale has :

- (A) 11 points
- (B) 7 points
- (C) 3 points
- (D) None of the above

7. एक विद्यार्थी की शारीरिक तथा मानसिक आयु समान है। उसका बुद्धि लब्धि होगा :

- (A) 100
- (B) 80
- (C) 110
- (D) 90

8. किस प्रकार के परीक्षण में पद विश्लेषण आवश्यक है ?

- (A) शिक्षक निर्मित परीक्षण
- (B) मानकीकृत परीक्षण
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. अभिवृत्ति मापन हेतु कौन सा मापक प्रयोग किया जाता है ?

- (A) क्रमित मापनी
- (B) प्रक्षेपण मापनी
- (C) लिफ्ट मापनी
- (D) नामित मापनी

10. गटमैन मापनी में होते हैं :

- (A) 11 बिन्दु
- (B) 7 बिन्दु
- (C) 3 बिन्दु
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

11. Thurston scale is used in :
- (A) Sampling
 - (B) To measure interest
 - (C) To measure mental condition
 - (D) To measure Attitude

12. X and Y two variable are correlated. It means two variables :
- (A) They are different
 - (B) They measure same specialty
 - (C) They change together
 - (D) None of the above

13. The Highest level of Measurement Scale is :
- (A) Nominal Scale
 - (B) Interval Scale
 - (C) Ordinal Scale
 - (D) Ratio Scale

14. Which software is used in research work ?
- (A) MAXQDA
 - (B) CAQDAS
 - (C) END Note
 - (D) SPSS text

11. थर्स्टन मापनी का प्रयोग किया जाता है :

- (A) प्रतिदर्शन में
- (B) रुचि मापन में
- (C) मानसिक स्थिति मापने में
- (D) अभिवृत्ति मापने में

12. X और Y दो चर सहसम्बन्धित हैं। इसका अर्थ है कि दोनों चर :

- (A) एक दूसरे से भिन्न हैं
- (B) एक ही विशेषता का मापन करते हैं
- (C) एक साथ परिवर्तित होते हैं
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

13. मापन के पैमाने का उच्चतम स्तर है :

- (A) नामित मापनी
- (B) अन्तराल मापनी
- (C) क्रमसूचक मापनी
- (D) अनुपात मापनी

14. अनुसंधान कार्य में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होता है ?

- (A) MAXQDA (एम ए एक्स क्यू डी ए)
- (B) CAQDAS (सी ए क्यू डी ए एस)
- (C) END Note (एण्ड नोट)
- (D) SPSS text (एस पी एस एस टैक्स्ट)

- | | |
|--|--|
| <p>15. Test validity is related with :</p> <p>(A) Quantity</p> <p>(B) Quality</p> <p>(C) Reliability</p> <p>(D) Level</p> | <p>15. परीक्षण की वैधता सम्बन्धित है :</p> <p>(A) मात्रा</p> <p>(B) गुण</p> <p>(C) विश्वसनीयता</p> <p>(D) स्तर</p> |
| <p>16. Which is not a Non-Parametric statistics ?</p> <p>(A) Chi-square test</p> <p>(B) t-test</p> <p>(C) W-test</p> <p>(D) u-test</p> | <p>16. अप्राचलिक सांख्यिकी नहीं है :</p> <p>(A) काई वर्ग परीक्षण</p> <p>(B) टी-परीक्षण</p> <p>(C) डब्ल्यू परीक्षण</p> <p>(D) यू परीक्षण</p> |
| <p>17. Likert scale is also known as :</p> <p>(A) Semantic differential scale</p> <p>(B) Cumulative scale</p> <p>(C) Summated ratic scale</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>17. लिकर्ट मापनी को कहा जाता है :</p> <p>(A) शब्दार्थ विभेदक मापनी</p> <p>(B) संचयी मापनी</p> <p>(C) समेकितनिर्धारण मापनी</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>18. Measurement of Physical Qualities is related with :</p> <p>(A) Interval scale</p> <p>(B) Ordinal scale</p> <p>(C) Ratio scale</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>18. भौतिक गुणों का मापन सम्बन्धित है :</p> <p>(A) अन्तराल मापनी से</p> <p>(B) क्रमित मापनी से</p> <p>(C) आनुपातिक मापनी से</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |

19. Cumulative frequency curve is also known as :

- (A) Histogram
- (B) Pie Diagram
- (C) Bar Graph
- (D) Ogive

20. Formula of Skewness is :

- (A) $\frac{3(M-Md)}{\sigma}$
- (B) $3(M - Md)$
- (C) $\frac{3M-\sigma}{Md}$
- (D) $3\sigma(M - Md)$

21. When Mode is 12 and Mean is 15 then Median of the data is :

- (A) 15
- (B) 12
- (C) 14
- (D) 16

22. A ratio scale includes a true zero point :

- (A) True
- (B) False
- (C) Somewhat true
- (D) None of the above

19. संचयी आवृत्ति वक्र को कहा जाता है :

- (A) दण्डकृति
- (B) वृत्त आलेख
- (C) बार ग्राफ
- (D) ओजाइब

20. स्किवनेस का सूत्र है :

- (A) $\frac{3(M-Md)}{\sigma}$
- (B) $3(M - Md)$
- (C) $\frac{3M-\sigma}{Md}$
- (D) $3\sigma(M - Md)$

21. यदि बहुलांक 12 है तथा माध्य 15 है मध्यांक होगा :

- (A) 15
- (B) 12
- (C) 14
- (D) 16

22. आनुपातिक मापनी में वास्तविक शून्य की संकल्पना :

- (A) सही है
- (B) गलत है
- (C) कुछ मात्रा तक सही है
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

23. Which is the highest level of the cognitive domain :

- (A) Evaluation
- (B) Analysis
- (C) Synthesis
- (D) Comprehension

24. Kuder Richardson method is used to estimate :

- (A) Validity
- (B) Usability
- (C) Reliability
- (D) Objectivity

25. Which of the following is not be determined graphically ?

- (A) Mode
- (B) Mean
- (C) Median
- (D) None of these

26. The planned interview is called :

- (A) Focused Interview
- (B) Panel Interview
- (C) Structural Interview
- (D) Group Interview

23. संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है :

- (A) मूल्यांकन
- (B) विश्लेषण
- (C) संश्लेषण
- (D) बोध

24. कूडर रिचर्डसन विधि प्रयोग की जाती है :

- (A) वैधता ज्ञात करने में
- (B) उपयोगिता ज्ञात करने में
- (C) विश्वसनीयता ज्ञात करने में
- (D) वस्तुनिष्ठता ज्ञात करने में

25. निम्नलिखित में से किस केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है ?

- (A) बहुलांक
- (B) मध्यमान
- (C) मध्यांक
- (D) इनमें से कोई नहीं

26. योजनाबद्ध साक्षात्कार कहलाता है :

- (A) केन्द्रित साक्षात्कार
- (B) पैनल साक्षात्कार
- (C) संरचनात्मक साक्षात्कार
- (D) समूह साक्षात्कार

27. It is necessary to apply a Questionnaire :
- Subjects should be literate
 - Subjects should be illiterate
 - Both (A) and (B)
 - None of these
28. In Schedule :
- Questions are read by Researcher
 - Answers are written by Researcher
 - Both of above
 - None of the above
29. The function of t-test is :
- To check the significance difference between two means
 - To check the significance correlation between two variables
 - Both (A) and (B)
 - Neither (A) nor (B)
30. Which technique is used to make a particular measurement ?
- Measurement
 - Statistics
 - Test
 - Evaluation
27. प्रश्नावली के प्रयोग के लिये आवश्यक है :
- उत्तरदाता शिक्षित होने चाहिये
 - उत्तरदाता अशिक्षित होने चाहिये
 - उपरोक्त दोनों (A) तथा (B)
 - इनमें से कोई नहीं
28. अनुसूची में :
- अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रश्न पढ़ता है
 - अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तर लिखता है
 - उपरोक्त दोनों
 - उपरोक्त में से कोई नहीं
29. टी-परीक्षण का कार्य है :
- दो मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता की जाँच करना
 - दो चरों के बीच सहसम्बन्ध की सार्थकता की जाँच करना
 - (A) तथा (B) दोनों
 - न तो (A) न ही (B)
30. किसी विशिष्ट मापन के लिये कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है ?
- मापन
 - सांख्यिकी
 - परीक्षण
 - मूल्यांकन

- | | |
|--|---|
| <p>31. Measurement process is :</p> <p>(A) Qualitative</p> <p>(B) Quantitative</p> <p>(C) (A) and (B) both</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>31. मापन की प्रक्रिया है :</p> <p>(A) गुणात्मक</p> <p>(B) परिमाणात्मक</p> <p>(C) (A) एवं (B) दोनों</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>32. Levels or Scales of Measurement are :</p> <p>(A) 6</p> <p>(B) 2</p> <p>(C) 4</p> <p>(D) 3</p> | <p>32. मापन के स्तर या पैमाना हैं :</p> <p>(A) 6</p> <p>(B) 2</p> <p>(C) 4</p> <p>(D) 3</p> |
| <p>33. According to Kothari Commission Evaluation is a _____ process.</p> <p>(A) Continuous</p> <p>(B) Stable</p> <p>(C) Isolate</p> <p>(D) Unstable</p> | <p>33. कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन एक _____ प्रक्रिया है।</p> <p>(A) सतत्</p> <p>(B) स्थिर</p> <p>(C) एकाकी</p> <p>(D) अस्थिर</p> |
| <p>34. The Word Isaptive Measurement is firstly used by :</p> <p>(A) Cattell</p> <p>(B) Stevens</p> <p>(C) Thorndike</p> <p>(D) Campbell</p> | <p>34. इसेप्टिव मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था :</p> <p>(A) कैटल ने</p> <p>(B) स्टीवेन्स ने</p> <p>(C) थार्नडाइक ने</p> <p>(D) कैम्पबेल ने</p> |

35. The most significance approach of Evaluation is :

- (A) Semester system evaluation
- (B) Conducting objective term and Examination
- (C) Continuous and Comprehensive Evaluation
- (D) Maintaining cumulative records of students

36. What type of Evaluation is carried out in the end of a course of study?

- (A) Assessment
- (B) Formative
- (C) Summative
- (D) None of the above

37. Which test is used to determining the ability of a learner ?

- (A) Aptitude test
- (B) Achievement test
- (C) Intelligence test
- (D) Attitude test

35. मूल्यांकन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है :

- (A) सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन
- (B) कोर्स की अवधि पूर्ण होने पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा का संचालन
- (C) अनवरत् एवम् बोधात्मक मूल्यांकन
- (D) छात्रों का संचयी रिकार्ड व्यवस्थित करना

36. किसी शिक्षण कोर्स के पूर्ण होने पर किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है ?

- (A) आंकलन
- (B) संरचनात्मक
- (C) योगात्मक
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

37. अधिगमकर्ता की योग्यता का परीक्षण करने हेतु कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है ?

- (A) अभिक्षमता परीक्षण
- (B) उपलब्धि परीक्षण
- (C) बुद्धि परीक्षण
- (D) अभिवृत्ति परीक्षण

38. Bloom Taxonomy is divided in :

- (A) 4 parts
- (B) 5 parts
- (C) 3 parts
- (D) 2 parts

39. Cognitive Domain of Bloom Taxonomy is written in behavioral terms by :

- (A) B. S. Bloom
- (B) Robert Miller
- (C) Robert Mager
- (D) Simpson

40. The difference between maximum and minimum values is known as :

- (A) Mean
- (B) Range
- (C) Mode
- (D) Median

41. Who presented the formula to determine I.Q. ?

- (A) Guilford
- (B) Terman
- (C) Alfred Binet
- (D) Stern

38. ब्लूम की टैक्सोनोमी विभाजित है :

- (A) चार भागों में
- (B) पाँच भागों में
- (C) तीन भागों में
- (D) दो भागों में

39. ब्लूम टैक्सोनोमी के ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि दी :

- (A) बी० एस० ब्लूम ने
- (B) रॉबर्ट मिलर ने
- (C) रॉबर्ट मेगर ने
- (D) सिम्पसन ने

40. अधिकतम एवं न्यूनतम मान के बीच के अन्तर को कहते हैं :

- (A) मध्यमान
- (B) प्रसार
- (C) बहुलांक
- (D) मध्यांक

41. बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने प्रतिपादित किया ?

- (A) गिलफोर्ड
- (B) टरमन
- (C) एल्फ्रेड बिने
- (D) स्टर्न

42. In which type of test the student's performance is compared with other students?

- (A) Criterion referenced test
- (B) Norm referenced test
- (C) Objective referenced test
- (D) None of the above

43. Which is not the area of Educational Measurement ?

- (A) Aptitude test
- (B) Discrimination
- (C) Intelligence test
- (D) Interest test

44. TAT test is a type of :

- (A) Projective test
- (B) Achievement test
- (C) Interest test
- (D) None of the above

45. Formula of T-Score is :

- (A) $T = 100(z) + 50$
- (B) $T = 1(z) + 50$
- (C) $T = 10(z) + 50$
- (D) $T = .01(z) + 50$

42. किस प्रकार के परीक्षण में विद्यार्थियों की प्रदर्शन क्षमता की अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना की जाती है ?

- (A) कसौटी सन्दर्भित परीक्षण
- (B) मानक सन्दर्भित परीक्षण
- (C) उद्देश्य सन्दर्भित परीक्षण
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

43. शैक्षिक मापन का कौन सा क्षेत्र नहीं है ?

- (A) अभिक्षमता परीक्षण
- (B) विभेदकता
- (C) बुद्धि परीक्षण
- (D) रुचि परीक्षण

44. टैट परीक्षण एक प्रकार का है :

- (A) प्रक्षेपण परीक्षण
- (B) उपलब्धि परीक्षण
- (C) रुचि परीक्षण
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

45. T-प्राप्तांक का सूत्र है :

- (A) $T = 100(z) + 50$
- (B) $T = 1(z) + 50$
- (C) $T = 10(z) + 50$
- (D) $T = .01(z) + 50$

46. Chi-Square (χ^2) test is developed by :

- (A) Spearman
- (B) Karl Pearson
- (C) R. A. Fisher
- (D) Galton

47. Chi-Square (χ^2) test is a type of :

- (A) Parametric test
- (B) None Parametric test
- (C) Correlation
- (D) None of the above

48. Formula of Chi-Square (χ^2) test is:

- (A) $\frac{\Sigma(f_o - f_e)^2}{f_e}$
- (B) $\Sigma \left[\frac{f_o^2 - f_e^2}{f_e} \right]$
- (C) $\Sigma \left[\frac{f_o - f_e}{f_e} \right]^2$
- (D) $\Sigma \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$

49. The validity of a tool depends upon :

- (A) The clarity of the items
- (B) What it exactly measures
- (C) The objectivity of measurement
- (D) The responses of the subjects

46. काई-वर्ग (χ^2) परीक्षण के प्रवर्तक है :

- (A) स्पीयमैन
- (B) कार्ल पीयरसन
- (C) आर० ए० फिशर
- (D) गाल्टन

47. काई-स्क्वायर (χ^2) परीक्षण एक प्रकार है :

- (A) प्राचल परीक्षण का
- (B) अप्राचल परीक्षण का
- (C) सहसम्बन्ध का
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

48. काई-वर्ग परीक्षण (χ^2) का सूत्र है :

- (A) $\frac{\Sigma(f_o - f_e)^2}{f_e}$
- (B) $\Sigma \left[\frac{f_o^2 - f_e^2}{f_e} \right]$
- (C) $\Sigma \left[\frac{f_o - f_e}{f_e} \right]^2$
- (D) $\Sigma \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$

49. उपकरण की वैधता निर्भर करती है :

- (A) पदों की स्पष्टता पर
- (B) जिसका वह ठीक-ठीक मापन करता हो
- (C) मापन की वस्तुनिष्ठता
- (D) विषयी के उत्तरों पर

50. According to a researcher a test is reliable if _____

- (A) The test is neither too long non too difficult
- (B) If students get similar scores every time
- (C) The test measures what is supposed to measure.
- (D) None of the above

51. What refers to the consistency of measurements ?

- (A) Criterion related validity
- (B) Construct Validity
- (C) Content Validity
- (D) Reliability

52. Which test is used to measure the learning outcomes of students ?

- (A) Achievement test
- (B) Diagnostic test
- (C) Attitude test
- (D) Intelligence test

53. If the scoring of the test is not affected by any factor, the quality of a test is basically called :

- (A) Reliability
- (B) Validity
- (C) Objectivity
- (D) Differentiability

50. एक अनुसंधानकर्ता के अनुसार एक परीक्षण विश्वसनीय होता है यदि :

- (A) परीक्षण न तो अधिक लंबा हो न ही कठिन
- (B) यदि विद्यार्थी हर बार समान अंक प्राप्त करें।
- (C) परीक्षण उसी गुण को मापता हो जिसके लिये उसे निर्मित किया गया है।
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

51. मापन की संगतता को उद्घृत करती है :

- (A) निकष सम्बन्धी वैधता
- (B) रचनात्मक वैधता
- (C) विषय वस्तु वैधता
- (D) विश्वसनीयता

52. विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल को मापने हेतु किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है ?

- (A) उपलब्धि परीक्षण
- (B) निदानात्मक परीक्षण
- (C) अभिवृत्ति परीक्षण
- (D) बुद्धि परीक्षण

53. यदि किसी परीक्षण की गणना किसी तत्व से प्रभावित नहीं होती है, परीक्षण का गुण कहलाता है :

- (A) विश्वसनीयता
- (B) वैधता
- (C) वस्तुनिष्ठता
- (D) विभिन्नता

54. The value that divides the data into two equal parts is known as :

- (A) Mode
- (B) Mean
- (C) Median
- (D) Mean deviation

55. The normal probability curve (NPC) is :

- (A) Bell shaped
- (B) Bilaterally symmetrical
- (C) Asymptotic to the base line
- (D) All of the above

56. Any curve will be Platy Kurtosis if:

- (A) $K_u = 0.263$
- (B) $K_u > 0.263$
- (C) $K_u < 0.263$
- (D) $K_u = 0.236$

54. वह मान जो आंकड़ों को दो समान भागों में विभाजित करता है कहलाता है :

- (A) बहुलांक
- (B) मध्यमान
- (C) मध्यांक
- (D) माध्य विचलन

55. सामान्य सम्भावना वक्र (NPC) है :

- (A) घंटाकार
- (B) द्विपक्षीय समरूपता
- (C) स्पर्शोन्मुख
- (D) उपरोक्त सभी

56. कोई भी वक्र अल्प वक्रिय होगा यदि :

- (A) $K_u = 0.263$
- (B) $K_u > 0.263$
- (C) $K_u < 0.263$
- (D) $K_u = 0.236$

57. If scores of a student in Hindi is 80 and mean of scores of students $M = 60$ and $S.D. (\sigma) = 8$ then z scores of student will be :

- (A) 3
- (B) 3.5
- (C) 2.5
- (D) 2

58. The Median value of given data- 15, 8, 30, 21, 19, 33, 24 is :

- (A) 19
- (B) 24
- (C) 15
- (D) 21

59. The formula of percentage score is:

- (A) $\frac{\text{Raw Score}}{\text{Whole Score}} \times 100$
- (B) $\frac{\text{Whole Score}}{100}$
- (C) $\frac{\text{Raw Score}}{100}$
- (D) $\frac{\text{Whole Score}}{\text{Raw Score}} \times 100$

57. यदि एक विद्यार्थी के हिन्दी विषय में 80 अंक हैं एवं विद्यार्थियों के अंकों का मध्यमान 60 है तथा मानक विचलन (σ) 8 है। उस विद्यार्थी के z प्राप्तांक होंगे :

- (A) 3
- (B) 3.5
- (C) 2.5
- (D) 2

58. दिये हुए प्राप्तांकों का मध्यांक है- 15, 8, 30, 21, 19, 33, 24

- (A) 19
- (B) 24
- (C) 15
- (D) 21

59. प्रतिशत प्राप्तांक का सूत्र है :

- (A) $\frac{\text{मूल प्राप्तांक}}{\text{पूर्णांक}} \times 100$
- (B) $\frac{\text{पूर्णांक}}{100}$
- (C) $\frac{\text{मूल प्राप्तांक}}{100}$
- (D) $\frac{\text{पूर्णांक}}{\text{मूल प्राप्तांक}} \times 100$

60. To find the true relationship between adjustment and achievement, the most appropriate measure will be :

- (A) Partial correlation
- (B) Multiple correlation
- (C) Product moment correlation
- (D) Tetrachoric correlation

60. समायोजन एवं उपलब्धि के बीच सहसम्बन्ध ज्ञात करने के लिये सबसे उपयुक्त मापन विधि होगी :

- (A) आंशिक सहसम्बन्ध
- (B) बहुल सहसम्बन्ध
- (C) प्रोडक्ट-मोमेंट सहसम्बन्ध
- (D) चतुष्कोणिक सहसम्बन्ध

DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 60 questions, out of which only 50 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the answer will be marked as wrong.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
6. After completion of examination, please hand over the O.M.R. SHEET to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

Note: On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.